



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1086) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2015

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

8 जून 2015

सं0 2/वि. 1-27/2014/487—बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष योजनान्तर्गत अनुदान की नीतिमूलक मार्गदर्शिका 2013-14 की अधिसूचना ज्ञापांक-712, दिनांक 14.06.2013 में अधिसूचना की कंडिका-6, कंडिका-7 की उप कंडिका (ii) (क)(ख) एवं कंडिका-9 में उप कंडिका (ड.) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

6. प्रतिभावान खिलाड़ी का तात्पर्य वैसे खिलाड़ी से है, जिन्होंने कंडिका-4 में अंकित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत/दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किया हो अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में सहभागिता हो।

7.(ii)(क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत/दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

7.(ii)(ख) राष्ट्रीय खेल संघों के मिनी/सब जूनियर एवं जूनियर स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत/दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

9. (ड.) राज्य के वैसे खिलाड़ी जिनका चयन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स हेतु (अवधि 18 माह) हो जाता है, उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि की स्वीकृति देने पर विचार किया जा सकेगा।

2. अधिसूचना ज्ञापांक-712, दिनांक 14.06.2013 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1086-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>